

M.A. (Part II) Examination

ECONOMICS

Group—B

Paper—X

(Economic of Insurance)

Time—Three Hours]

[Maximum Marks—100

Note :— (1) Attempt all FIVE questions.

(2) All questions carry equal marks.

1. (a) What is insurance ? Explain its functions.
(b) Give the features of life insurance.
(c) State the concept of economic security.
(d) Explain the economic and legal perspectives of insurance.

OR

- (e) What are the economic perspectives of insurance ?
(f) Explain the limitations of insurance.
(g) How risk transfer is done by insurance companies ?
(h) How human life is exposed to various losses ?

2. What do you mean by Re-insurance ? What are the advantages of Re-insurance ? Explain the characteristics of Re-insurance contract.

OR

What are the elements of risk management ? Explain the pure and speculative risk.

3. (a) State the important functions of Life-insurance companies.
(b) Explain the classification of risks.
(c) Explain the advantages of group insurance schemes.
(d) Distinguish between surrender value and paid-up value.

OR

- (e) Explain the fundamental principles of life insurance.
(f) State the legal aspects of life insurance.
(g) Explain the functions of Health insurance companies.
(h) Explain the distribution system of surplus profit of insurance companies.
4. Explain in detail importance and various types of general insurance.

OR

4. सामान्य बीमा का महत्व एवं विभिन्न प्रकार विस्तार से स्पष्ट कीजिये।

अथवा

सामान्य बीमा का विपणन स्पष्ट कीजिये। सामान्य बीमा के लिये विभिन्न जोखिम का चयन एवं श्रेणीयन कैसे किया जाता है ?

5. (अ) जीवनचक्र नियोजन का आशय क्या है ?
(ब) बीमा क्रय के कर लाभ स्पष्ट कीजिये।
(क) निवृत्ति वेतन योजना के तत्वों को स्पष्ट कीजिये।
(ड) आय.आर.डी.ए. (IRDA) का नियमन स्पष्ट कीजिये।

अथवा

- (इ) भारत के बीमा नियमन सिद्धांत स्पष्ट कीजिये।
(फ) निवृत्ति योजनाओं की व्यूहरचना अवधारणा स्पष्ट कीजिये।
(ग) आय.आर.डी.ए. (IRDA) के कार्य स्पष्ट कीजिये।
(ह) मालमत्ता नियोजन प्रक्रिया का स्पष्टीकरण कीजिये।

(ड) बीमा की आर्थिक एवं वैधानिक बाजू स्पष्ट कीजिये।

अथवा

(इ) बीमा की आर्थिक बाजू कौनसी है ?

(फ) बीमा की मर्यादाएं स्पष्ट कीजिये।

(ग) बीमा कंपनी द्वारा जोखिम का स्थानांतरण कैसे किया जाता है ?

(ह) मानवी जीवन विभिन्न हानियों को कैसे बली पड़ता है ?

2. पुनर्बीमा क्या है ? पुनर्बीमा के लाभ कौनसे हैं ? पुनर्बीमा करार के लक्षणों को स्पष्ट कीजिये।

अथवा

जोखिम व्यवस्थापन के कारक कौनसे हैं ? शुद्ध एवं परिकल्पनिक जोखिम स्पष्ट कीजिये।

3. (अ) आयुर्बीमा कंपनियों के प्रमुख कार्य बताइये।

(ब) जोखिम का वर्गीकरण स्पष्ट कीजिये।

(क) समूह बीमा योजना के लाभ स्पष्ट कीजिये।

(ड) समर्पण मूल्य एवं हप्ताबंद मूल्य इनमें अंतर स्पष्ट कीजिये।

अथवा

(इ) आयुर्बीमा के मुलभूत तत्वों को स्पष्ट कीजिये।

(फ) जीवन बीमा की वैधानिक बाजू स्पष्ट कीजिये।

(ग) स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के कार्य स्पष्ट कीजिये।

(ह) बीमा कंपनियों की अतिरिक्त लाभ वितरण प्रणाली स्पष्ट कीजिये।

Explain the marketing of general insurance. How is selection and rating done for various risks for general insurance ?

5. (a) What is meant by life cycle planning ?

(b) Explain the tax advantages from the purchase of insurance.

(c) Explain the principles of pension plans.

(d) Explain the regulatory of IRDA (Insurance Regulation and Development Authority).

OR

(e) Explain the theory of Insurance Regulation in India.

(f) Explain the concept of retirement planning strategy.

(g) Explain the functions of IRDA (Insurance Regulation and Development Authority).

(h) Explain the planning process of estate planning.

(मराठी माध्यम)

सूचना :—(1) सर्व पाचही प्रश्न सोडवा.

(2) सर्व प्रश्नांना समान गुण आहेत.

1. (अ) विमा म्हणजे काय ? विम्याची कार्ये स्पष्ट करा.

(ब) जीवन विम्याची वैशिष्ट्ये द्या.

(क) आर्थिक सुरक्षेची संकल्पना स्पष्ट करा.

(ड) विम्याच्या आर्थिक आणि वैधानिक बाजू स्पष्ट करा.

किंवा

(इ) विम्याच्या आर्थिक बाजू कोणत्या आहेत ?

(फ) विम्याच्या मर्यादा स्पष्ट करा.

(ग) विमा कंपन्याद्वारा जोखमीचे स्थानांतरण कसे केले जाते ?

(ह) मानवी जीवन हे विविध हानीना कसे बळी पडते ?

2. पुनर्विमा म्हणजे काय ? पुनर्विम्याचे फायदे कोणते आहेत ?
पुनर्विमा कराराची लक्षणे स्पष्ट करा.

किंवा

जोखिम व्यवस्थापनाचे घटक कोणते आहेत ? शुद्ध आणि परिकल्पनिक जोखिम स्पष्ट करा.

3. (अ) आयुर्विमा कंपन्यांची महत्वाची कार्ये सांगा.
(ब) जोखमीचे वर्गीकरण स्पष्ट करा.
(क) समूह विमा योजनेचे फायदे स्पष्ट करा.
(ड) समर्पण मुल्य व हप्ताबंद मुल्य यातील फरक स्पष्ट करा.

किंवा

(इ) आयुर्विम्याची मुलभूत तत्वे स्पष्ट करा.

(फ) जीवन विम्याची वैधानिक बाजू स्पष्ट करा.

(ग) आरोग्य विमा कंपन्याची कार्ये स्पष्ट करा.

(ह) विमा कंपन्याची अतिरिक्त लाभ वितरण पद्धती स्पष्ट करा.

4. सामान्य विम्याचे महत्व आणि विभिन्न प्रकार सविस्तर स्पष्ट करा.

किंवा

सामान्य विम्याचे विपणन स्पष्ट करा. सामान्य विम्यासाठी विविध जोखिमीची निवड व श्रेणीयन कसे केले जाते ?

5. (अ) जीवन चक्र नियोजन म्हणजे काय ?
(ब) विमा खरेदीचे कर लाभ स्पष्ट करा.
(क) निवृत्ती वेतन योजनेची तत्वे स्पष्ट करा.
(ड) आय.आर.डी.ए. (IRDA) चे नियमन स्पष्ट करा.

किंवा

- (इ) भारतातील विमा नियमनाचा सिद्धांत स्पष्ट करा.
(फ) निवृत्ती योजना व्यूहरचनेची संकल्पना स्पष्ट करा.
(ग) आय.आर.डी.ए. (IRDA) चे कार्य स्पष्ट करा.
(ह) मालमत्ता नियोजनाच्या प्रक्रियेचे स्पष्टीकरण द्या.

(हिन्दी माध्यम)

सूचना :— (1) सभी पाँच प्रश्न हल कीजिये।

(2) सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. (अ) बीमा क्या है ? बीमा के कार्य स्पष्ट कीजिये।
(ब) आयुर्विमा की विशेषता दीजिये।
(क) आर्थिक सुरक्षा की संकल्पना स्पष्ट कीजिये।